



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2530]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2017/भाद्र 10, 1939

No. 2530]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2017/BHADRA 10, 1939

ज्य ए&ky;

१/११०५ ८५५५

११/११ १५५

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

८५-११- 2889११/११&केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, रोहतास, सासाराम, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

वृद्धि

बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए रोहतास जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

Ø- l a	ftyk dk uke	vpy dk uke	ekStk dk uke	Fkkuk ua	lykV l a	j dck gDV\$ j ea
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रोहतास	शिवसागर	औरैया	17	168	0.0050
					175	0.0020
					176	0.0423
					177	0.1002
					178	0.0668
					180	0.0101
					181	0.0121
					182	0.0056
					183	0.0152
					185	0.0081

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ईसी/881]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017

S.O. 2889(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the district of Rohtas in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Rohtas, Sasaram, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar.

Sl. No.	Name of District	Name of Circle	Name of Village	Thana No.	Survey No.	Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rohtas	Shivsagar	Auraiya	17	168	0.0050
					175	0.0020
					176	0.0423
					177	0.1002
					178	0.0668
					180	0.0101
					181	0.0121
					182	0.0056
					183	0.0152
					185	0.0081

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/881]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)